

Humanity

FEST

JUNE 14 - 17, 2018

आत्मा और तन-मन के सहयोग से
हम रक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे
मानवता के सिद्धान्त की।



AWAKE HUMANITY



a fest for quest of self



प्रकाशक

सतयुग दर्शन ट्रस्ट (रजि.)

“वसुन्धरा” ग्राम भूपानी-लालपुर रोड फरीदाबाद-121002 (हरियाणा)

ई-मेल: info@satyugdarshantrust.org

website: www.satyugdarshantrust.org

© सर्वाधिकार सुरक्षित सतयुग दर्शन ट्रस्ट (रजि.)

ISBN : 978-93-85423-16-1

प्रथम संस्करण

सितम्बर, 2018

Humanity

F E S T

JUNE 14 - 17, 2018

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
प्रथम दिवस		
<hr/>		
दिनांक 14 जून 2018		
सायं:काल 6 बजे		
1.	प्रार्थना - हे प्रभु बल बुद्धि और हमको	03
2.	Humanity Fest का प्रयोजन	04
3.	समय का संदेश	09
द्वितीय दिवस		
<hr/>		
दिनांक 15 जून 2018		
प्रातःकाल 6 बजे		
4.	प्रार्थना - हे श्री साजन तुम्हें प्रणाम	17
5.	योगा	18
6.	अक्षर का अभ्यास घड़ी की टक-टक के साथ	20
प्रातःकाल 10 बजे		
7.	प्रार्थना - हे प्रभु बल बुद्धि और हमको	26
8.	Drill	28
9.	आओ मूलमंत्र आद् अक्षर का अर्थ जानें। ईश्वर और कुछ भी नहीं (कविता) साजन साजन	34
10	मानव (Presentation)	41

11.	Humanity Song	68
12.	त्याज्य बुराईयाँ काम-क्रोध बुरा करने वालों से पूछो....गायन	72
13.	लोभ, मोह, अहंकार जो भी चाहें हम कर सकते हैं....गायन दोपहर - 3 बजे खेल	77
	सायं:काल 6 बजे	81
14.	हम एक हैं, हम एक हैं	91
15.	Kite Flying and Painting Competition रात्रि 9 बजे	96
16.	नकारात्मक भाव/विचार (Presentation)	100
17.	आत्मनिरीक्षण तृतीय दिवस	132
<hr/>		
	दिनांक 16 जून 2018 प्रातःकाल 6 बजे	
18.	प्रार्थना - हे श्री साजन तुम्हें प्रणाम	139
19.	जुम्बा	140
20.	समय का आवाहन-लौकिकता के स्थान पर अलौकिक चलन अपनाओ।	141

प्रातःकाल 10 बजे

21. प्रार्थना - हे प्रभु बल बुद्धि और हमको 145
22. Drill 149
23. परमात्मा का मानव को संदेश 151
मुझे बनना है (गायन)
24. धारणीय सद्गुण 157
25. नीयत 163
मन में रहने वाला जो भी भाव हो (गायन)
26. मानवता नृत्य नाटिका 166
नाचो रे गाओ रे (गायन)

दोपहर -3 बजे

27. खेल 174
सायं:काल 6 बजे
28. Talent Hunt और चौपाटी 180

चतुर्थ दिवस

दिनांक 17 जून 2018

प्रातः काल 6 बजे

29. आओ मिलकर कदम बढ़ाएँ 192
30. Run for Humanity - Marathon 198
प्रातःकाल 10 बजे
31. अच्छा इंसान 203
29. Press Clippings 213